

ब्रू प्रवासियों का पुनर्वास

1. अक्टूबर, 1997 में, मिजोरम के पश्चिमी भाग में जातीय हिंसा के कारण अल्पसंख्यक ब्रू (रियांग) के अधिकांश परिवार 1997-1998 में नार्थ त्रिपुरा में जाकर बस गए। उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में स्थापित छः राहत शिविरों में लगभग 30,000 (5,000 परिवारों) ब्रू प्रवासियों को शरण प्रदान की गई।
2. ब्रू परिवारों का मिजोरम में वर्ष 2010 में शुरु हुआ और वर्ष 2014 तक, छः बैचों में लगभग 1622 ब्रू परिवारों (8,573 व्यक्ति) को प्रत्यावर्तन किया और मिजोरम में बसाए गए ।
3. त्रिपुरा में अस्थायी शिविरों में रहने वाले 32876 व्यक्तियों के 5407 ब्रू परिवारों को प्रत्यावर्तन के लिए दिनांक 03.07.2018 को भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स फोरम (एमबीडीपीएफ) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परिणामस्वरूप, 30.11.2019 तक समझौते के तहत 1369 व्यक्तियों के 328 परिवारों को मिजोरम में वापस बसाया गया। सुरक्षा को लेकर उनकी आशंकाओं को देखते हुए ब्रू परिवारों की लगातार मांग रही है कि उन्हें त्रिपुरा में बसाया जाए।
4. ब्रू परिवारों की मांग को ध्यान में रखते हुए और ब्रू परिवारों के पुनर्वास के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार द्वारा ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों से साथ दिनांक 16.01.2020 को लगभग 661.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता/पैकेज के साथ त्रिपुरा में 6959 ब्रू परिवारों (37,136 व्यक्तियों) के स्थायी पुनर्वास के लिए एक नये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, प्रत्येक पुनर्वासित ब्रू परिवार को 30x40 वर्ग फुट भूमि और 1.5 लाख रुपये मकान निर्माण के लिए, सावधि जमा रु. 4 लाख, दो वर्ष के लिए नकद सहायता रु. 5,000/- प्रति माह और निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा।
5. त्रिपुरा में ब्रू के पुनर्वास में लगातार प्रगति हो रही है। कुल 19 चिन्हित स्थानों में से त्रिपुरा के तीन जिलों में 7 स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से पुनर्वास कार्य चल रहा है। अब तक 2228 परिवारों (6959 परिवारों में से) को 7 स्थानों पर बसाया गया है तथा 2231 परिवारों को भवन निर्माण अग्रिम दिया गया है और 942 घरों का निर्माण किया जा चुका है। सभी ब्रू लाभार्थियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

विगत सात वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष (31.01.2022 तक) के दौरान ब्रू प्रवासियों के पुनर्वास के लिए मिजोरम और त्रिपुरा को जारी की गयी निधि का वर्ष-वार विवरण -

(रु. करोड़ में)

वर्ष	त्रिपुरा राज्य के लिए जारी	मिजोरम
2014-15	35.00	4.70
2015-16	30.00	5.00
2016-17	22.26	7.50
2017-18	25.14	16.50
2018-19	45.17	50.00
2019-20	28.38	100.00
2020-21	140.00	0
2021-22 (31.01.2022 तक)	83.00	0
